



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1946 (श10)

(सं० पटना 504) पटना, बुधवार, 12 जून 2024

सं० 27 / आरोप-01-11 / 2024-8745 / सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
4 जून 2024

मो० मंजूर आलम, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-672/23), जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल-सह-प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग, सुपौल के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-1000-2 दिनांक-06.05.2024 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि "लोकसभा चुनाव-2024 के तृतीय चरण के तहत 08-सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 07.05.2024 को चुनाव की निर्धारित तिथि के पूर्व दिनांक 05.05.2024 तक मतदान कर्मियों को नियुक्ति पत्र, मतदान सामग्री एवं वाहन लॉग बुक/ईंधन कूपन हस्तगत कराना था। इस हेतु दिनांक 04.05.2024 को ही वाहन कोषांग से संबंधित कार्य यथा लॉग बुक का संधारण, वाहन का टैगिंग एवं कम्यूनिकेशन प्लान तैयार कर लेना था। जिला पदाधिकारी, सुपौल के वाहन कोषांग के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि वाहनों को मतदान दल के साथ टैगिंग नहीं किया गया है तथा किसी भी वाहन के विन्ड स्क्रीन पर मतदान दल संख्या चिपकाया नहीं गया है। वाहनों का देय ईंधन कूपन भी तैयार नहीं पाया गया। साथ ही वाहनों का लॉग बुक संधारित नहीं पाया गया। पृच्छा करने पर कई वाहनों का लॉग बुक प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री आलम द्वारा निर्वाचन कार्य को विफल कराने का कुत्सित प्रयास किया गया।"

2. उक्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(क) एवं (ख) में निहित प्रावधानों के तहत संकल्प निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक के लिए मो० मंजूर आलम, बि०प्र०से० (कोटि क्रमांक-672/23), जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल-सह-प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग, सुपौल को निलंबित किया जाता है एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

3. इन्हें निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 के प्रावधानों के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. मो० आलम के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

आदेश:— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्र नाथ चौधरी,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 504-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>